

191



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शनिवार जुलाई 5, 1980/आषाढ़ 14, 1902
No. 191] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5, 1980/ASADHA 14, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1980

सा. का. नि. 396(अ).—केंद्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) के परन्तुक के साथ पाठित उक्त उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के, कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित है प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है; और इसके सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से जिस तारीख को उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित होती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, 30 दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1980 है।
- खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट 'ख' की मदक-19 में, मानक (10) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(10) इसमें कच्चा या परिष्कृत तिल का तेल होगा जो भार में 2.5 प्रतिशत से कम नहीं होगा किन्तु इतना पर्याप्त होगा कि लोवीबॉन्ड मापमन पर बड़ोहन परीक्षण किए जाने पर 1 स. मी. सेल पर उत्पन्न रंग 2.0 लाल एककों से हल्का नहीं होगा।”

[संख्या पी. 15014/3/80-पी. एच. (एफ. एण्ड एन) पी. एफ. ए.]

टी. वी. अण्टोनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 1980

G.S.R. 396(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 23 read with the proviso to that sub-section of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) is hereby published as required by sub-section (1) of the said section 23 for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the notification is published are made available to the public.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1980.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in Appendix B, in item A 19, for standard (x), the following shall be substituted, namely :—

“(x) It shall contain raw or refined sesame (til) oil not less than 2.5 percent by weight, but sufficient so that the colour produced by the Baudouin test shall not be lighter than 2.0 Red units in a 1 cm cell on a lovibond scale.”

[No. P. 15014/3/80-PH(F&N)PFA]

T. V. ANTONY, Jt. Secy.